

Ashutosh Shashank Shekhar

श्लोक : 1

आशुतोष शशांक शेखर,
चन्द्र मौली चिदंबरा,
कोटि कोटि प्रणाम शम्भू,
कोटि नमन दिगम्बरा ॥

श्लोक : 2

निर्विकार ओमकार अविनाशी,
तुम्ही देवाधि देव,
जगत सर्जक प्रलय करता,
शिवम सत्यम सुंदरा ॥

श्लोक : 3

निरंकार स्वरूप कालेश्वर,
महा योगीश्वरा,
दयानिधि दानिश्चर जय,
जटाधार अभयंकरा ॥

श्लोक : 4

शूल पानी त्रिशूल धारी,
औगडी बाघम्बरी,
जय महेश त्रिलोचनाय,

विश्वनाथ विशम्भरा ॥

श्लोक : 5

नाथ नागेश्वर हरो हर,
पाप साप अभिशाप तम,
महादेव महान भोले,
सदा शिव शिव संकरा ॥

श्लोक : 6

जगत पति अनुरकती भक्ति,
सदैव तेरे चरण हो,
क्षमा हो अपराध सब,
जय जयति जगदीश्वरा ॥

श्लोक : 7

जनम जीवन जगत का,
संताप ताप मिटे सभी,
ओम नमः शिवाय मन,
जपता रहे पञ्चाक्षरा ॥

श्लोक : 8

आशुतोष शशांक शेखर,
चन्द्र मौली चिदंबरा,
कोटि कोटि प्रणाम शम्भू,
कोटि नमन दिगम्बरा ॥

